



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324]  
No. 324]

नई दिल्ली, गनिवार, सितम्बर 3, 1983/ भाद्र 12, 1905  
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1983/BHADRA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(व्यय विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1983

सा. का. नि. 680(अ) —सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक से परामर्श करके, राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) पांचवा संशोधन नियम, 1975 में एतद्वारा और आगे संशोधन करते हैं, अर्थात् —

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) पांचवा संशोधन नियमावली, 1975 के नियम (1) के उप-नियम (2) की प्रविष्टि (14) (1) (क) में संलग्न तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी —

1	2	3	4
2क हउ ड्राफ्ट्समैन	150-5-175-6-	330-10-380-द०र०-	
	205-द०र०-7-240	12-500-द०र०-15-560"	

पाद टिप्पणी —उपरोक्त संशोधन का आशय हउ ड्राफ्ट्समैन के पद के संबंध में पहले अधिसूचित किए गए पूर्व-संशोधित तथा तदनुसूची संशोधित वेतनमानों में

हुई कुछ गलतियों को ठीक करना है। चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित-वेतन) पांचवां संशोधन नियमावली, 1975, 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी है, इसलिए उसमें उपर्युक्त संशोधन भी 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी होगा। चूंकि इस संशोधन का आशय पहले हुई गलती को केवल सुधारना मात्र है, इसलिए इसके कारण किसी के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. एफ 5(64)-ई-3/83]

एन सी महालिक, मंत्रालय सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Deptt. of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1983

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the

Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following further amendments in the Central Civil Services (Revised Pay) Fifth Amendment Rules, 1975, namely :—

For the Table, appended to entry (XIV)(i)(A) of sub-rule (2) of rule (1) of Central Civil Service (Revised Pay) Fifth Amendment Rules, 1975, the following Table shall be substituted :—

1	2	3	4
2A	Head Draftsman	150-5-175-6-205- EB-7-240	330-10-380-EB-12- 500-EB-15-560

Foot Note :—The aforesaid amendment intends to rectify certain mistakes in pre-revised and corresponding revised scales notified earlier in respect of the post of Head Draftsman. As Central Civil Service (Revised Pay) Fifth Amendment Rules, 1975, are effective from the 1st January, 1973, the aforesaid amendment thereto shall also be effective from the 1st January, 1973 only. As the amendment seeks to rectify only a mistake occurred earlier, the interest of no one will be adversely affected.

[No. F. 5(64)-E.III|83]

S. C. MAHALIK, Jt. Secy.